



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 477]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 8, 1977/कार्तिक 17, 1899

No. 477]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 8, 1977/KARTIKA 17, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## MINISTRY OF LABOUR

### NOTIFICATION

New Delhi, the 8th November 1977

S.O. 758(E).—In exercise of the powers conferred by rule 31 of the Iron Ore Mines Labour Welfare Cess Rules, 1963 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No S.O 467(E) dated, 9th July, 1976, the Central Government hereby specifies Shri Daljit Singh, Deputy Secretary in the Ministry of Labour, New Delhi to be the Iron Ore Mines Cess Commissioner, who shall be responsible for the assessment and collection of the duty of excise levied under clause (b) of section 2 of Iron Ore Mines Labour Welfare Cess Act, 1961 (58 of 1961) with effect from 8-11-77 to 31-12-77 or till a Director General (Labour Welfare) is appointed, whichever is earlier.

[No. S-23013/2/74-MIV]

D. BANDYOPADHYAY, Jt. Secy.

## श्रम मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 1977

का० आ० 758(अ).—लौह अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर नियम, 1963 के नियम 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सख्या का० आ० 467(अ), तारीख 9 जुलाई, 1976 को अधिकांश करने हुए, केन्द्रीय सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली के उप सचिव श्री दलजीत सिंह को लौह अयस्क खान उपकर आयुक्त के रूप में विनिविष्ट करती है जो लौह अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर अधिनियम, 1961 (1961 का 58) की धारा 2 के खण्ड (ख) के अधीन, 8 नवम्बर, 1977 से 31 दिसम्बर, 1977 तक या जब तक कि महा निदेशक (श्रम कल्याण) की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक इनमें से जो भी पहले हो, उद्गृहीत उत्पाद शुल्क के निर्धारण और संग्रहण के लिए जिम्मेदार होगा।

[स० एस-23013/2/77-खान-IV]

डी० बम्पोपाध्याय, संयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा  
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977